

## आमोस

### प्रस्तावना

1 आमोस का सन्देश। आमोस तकोई नगर का गडेरिया था। यहूदा पर राजा उज्जिय्याह के शासन काल और इस्राएल पर योआश के पुत्र राजा यारोबाम के शासन काल में आमोस को इस्राएल के बारे में (अन्त) दर्शन हुआ। यह भूकम्प के दो वर्ष पूर्व हुआ।

### अराम के विस्तृत दण्ड

2 आमोस ने कहा:

“यहोवा सिय्योन में सिंह की तरह दहाड़ेगा।

यहोवा की दहाड़ यरूशलेम से होगी।

गडेरियों के हरे मैदान सूख जायेंगे।

यहाँ तक कि कर्म्मेल पर्वत भी सूखेगा।”

3 यह सब यहोवा कहता है: “मैं दमिश्क के लोगों को उनके द्वारा किये गये अनेक अपराधों का दण्ड अवश्य दूँगा। क्यों क्योंकि उन्होंने गिलाद को, अन्न को भूसे से अलग करने वाले लोहे के औजारों से पीटा।

4 अतः मैं हजाएल के घर (सिरिया) में आग लगाऊँगा, और वह आग बेन्हदद के ऊँचे किलों को नष्ट करेगी।”

5 “मैं दमिश्क क द्वार की मजबूत छड़ों को भी तोड़ दूँगा। आवेन की घाटी में सिंहासन पर बैठाने वाले व्यक्ति को भी मैं नष्ट करूँगा। एदेन में राजदण्ड धारण करने वाले राजा को भी मैं नष्ट करूँगा। अराम के लोग पराजित होंगे। लोग उन्हें बन्दी बनाकर कीर देश में ले जाएंगे।” यहोवा ने वह सब कहा।

### पलिशतियों को दण्ड

6 यहोवा यह कहता है: “मैं निश्चय ही अज्जा के लोगों द्वारा किये गये अनेक पापों के लिये उन्हें दण्ड दूँगा। क्यों क्योंकि उन्होंने लोगों के एक पूरे राष्ट्र को पकड़ा और दास के रूप में एदोम को भेजा था।

7 इसलिये मैं अज्जा नगर की दीवार पर आग लगाऊँगा। यह आग अज्जा के महत्वपूर्ण किलों को नष्ट करेगी।

8 मैं अशदोद में राजसिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति को नष्ट करूँगा। मैं अशकलोन में राजदण्ड धारण करने वाले राजा को नष्ट करूँगा। मैं एक्रोन के लोगों को दण्ड दूँगा। तब अभी तक जीवित बचे पलिशती मरेंगे।” परमेश्वर यहोवा ने यह सब कहा।

### फनूशिया को दण्ड

9 यहोवा यह सब कहता है: “मैं निश्चय ही सोर के लोगों को उनके द्वारा किये गए अनेक अपराधों के लिए दण्ड दूँगा। क्यों क्योंकि उन्होंने लोगों के एक पूरे राष्ट्र को पकड़ा और एदोम को दास के रूप में भेजा था। उन्होंने उस वाचा को याद नहीं रखा जिसे उन्होंने अपने भाईयों (इस्राएल) के साथ किया था

10 अतः मैं सोर की दीवारों पर आग लगाऊँगा। वह आग सोर की ऊँची मीनारों को नष्ट करेगी।”

### एदोमियों को दण्ड

11 यहोवा यह सब कहता है: “मैं निश्चय ही एदोम के लोगों को उनके द्वारा किये गए अनेक अपराधों के लिये दण्ड दूँगा। क्यों क्योंकि एदोम ने अपने भाई (इस्राएल) का पीछा तलवार लेकर किया। एदोम ने तनिक भी दया न दिखाई। एदोम का क्रोध बराबर बना रहा। वह जंगली जानवर की तरह इस्राएल को चीर—फाड़ करता रहा।

12 अतः मैं तेमान में आग लगाऊँगा। वह आग बोस्त्रा के ऊँचे किलों को नष्ट करेगी।”

### अम्मोनियों को दण्ड

13 यहोवा यह सब कहता है: “मैं निश्चय ही अम्मोन के लोगों को उनके द्वारा किये गये अनेक अपराधों के लिये दण्ड दूँगा। क्यों क्योंकि उन्होंने गिलाद में गर्भवती स्त्रियों को मार डाला। अम्मोनी लोगों ने यह इसलिये किया कि वे उस देश को ले सकें और अपने देश को बड़ कर सकें।

14 अतः मैं रब्बा की दीवार पर आग लगाऊँगा। यह आग रब्बा के ऊँचे किलों को नष्ट करेगी। युद्ध के दिन यह आग लगेगी। यह आग एक ऐसे दिन लगेगी जब तूफानी दिन में आंधियाँ चल रही होंगी।

15 तब इनके राजा और प्रमुख पकड़े जायेंगे। वे सब एक साथ बन्दी बनाकर ले जाए जायेंगे।” यहोवा ने वह सब कहा है।

## 2

### मोआब को दण्ड

1 यहोवा यह सब कहता है: “मैं मोआब के लोगों को इनके द्वारा किये गए अपराधों के लिये अवश्य दण्ड दूँगा। क्यों क्योंकि मोआब ने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना बनाया।

2 अतः मैं मोआब में आग लगाऊँगा और वह आग करिय्योत के ऊँचे किलों को नष्ट करेगी। वहाँ भयंकर चिल्लाहट और तुही का घोष होगा, और मोआब मर जाएगा।

3 अतः मैं मोआब के राजाओ को समाप्त कर दूँगा और मैं मोआब के सभी प्रमुखों को मार डालूँगा।” यहोवा ने वह सब कहा।

### यहदा को दण्ड

4 यहोवा यह कहता है: “मैं यहदा को उसके द्वारा किये अनेकों अपराधों के लिये अवश्य दण्ड दूँगा। क्यों क्योंकि उन्होंने यहोवा के आदेशों को मानने से इनकार किया। उन्होंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया। उनके पूर्वजों ने झूठ पर विश्वास किया और उन झूठी बातों ने यहदा के लोगों से परमेश्वर का अनुसरण करना छुड़ाया।

5 इसलिये मैं यहदा में आग लगाऊँगा और यह आग यरूशलेम के ऊँचे किलों को नष्ट करेगी।”

### इस्राएल को दण्ड

6 यहोवा यह कहता है: “मैं इस्राएल को उनके द्वारा किये गए अनेकों अपराधों के लिये दण्ड अवश्य दूँगा। क्यों क्योंकि उन्होंने चाँदी के चन्द टुकड़ों के लिये अच्छे और भोले—भाले लोगों को दास के रूप में बेचा। उन्होंने एक जोड़ी जूते के लिये गरीब लोगों को बेचा।

7 उन्होंने उन गरीब लोगों को धक्का दे मुँह के बल गिराया और वे उनको कुचलते हुए गए। उन्होंने कष्ट भोगते लोगों की एक न सुनी। पिताओं और पुत्रों ने एक ही युवती के साथ शारीरिक सम्बंध किया। उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र किया है।

8 उन्होंने गरीब लोगों के वस्त्रों को लिया और वे उन पर गलीचे की तरह तब तक बैठे जब तक वे वेदी पर पूजा करते रहे। उन्होंने गरीबों को उनके वस्त्र गिरवी

रख कर सिक्के उधार दिये। उन्होंने लोगों को जुर्माना देने को मजबूर किया और उस जुर्माने की रकम से अपने परमेश्वर के मन्दिर में पीने के लिये दाखमधु खरीदी।

9 “किन्तु मैंने ही उनके पहले एमोरियों को नष्ट किया था। एमोरी ऊँचे बरगद के पेड़ की तरह थे। वे उतने शक्तिशाली थे जितने बांज के पेड़। किन्तु मैंने उनके ऊपर के फल तथा उनके नीचे की जड़ें नष्ट कीं।

10 “वह मैं ही था जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया। चालीस वर्ष तक मैं तुम्हें मरुभूमि से होकर लाया। मैंने तुम्हें एमोरियों की भूमि पर कब्जा कर लेने में सहायता दी।

11 मैंने तुम्हारे कुछ पुत्रों को नबी बनाया। मैंने तुम्हारे युवकों में से कुछ को नाजीर बनाया। इस्राएल के लोगों, यह सत्य है।” यहोवा ने यह सब कहा।

12 “किन्तु तुम लोगों ने नाजीरों को दाखमधु पिलाई। तुमने नबियों को भविष्यवाणी करने से रोका।

13 तुम लोग मेरे लिये भारी बोझ की तरह हो। मैं उस गाड़ी की तरह हूँ जो अत्याधिक अनाज से लदी होने के कारण झुकी हो।

14 कोई भी व्यक्ति बच कर नहीं निकल पाएगा, यहाँ तक कि सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला भी। शक्तिशाली पुरुष भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं रहेंगे। सैनिक अपने को नहीं बचा पाएँगे।

15 धनुष और बाण वाले भी नहीं बच पाएँगे। तेज दौड़ने वाले भी नहीं बच निकलेंगे। घुड़सवार भी जीवित भाग नहीं पाएँगे।

16 उस समय, बहुत वीर योद्धा भी नंगे हाथों भाग खड़े होंगे। उन्हें अपने वस्त्र पहनने तक का समय भी नहीं मिलेगा।” यहोवा ने यह सब कहा है!

## 3

### इस्राएल को चेतावनी

1 इस्राएल के लोगों, इस सन्देश को सुनो! यहोवा ने तुम्हारे बारे में यह सब कहा है! यह सन्देश उन सभी परिवारों (इस्राएल) के लिये है जिन्हें मैं मिस्र देश से बाहर लाया हूँ।

2 “पृथ्वी पर अनेक परिवार हैं। किन्तु तुम अकेले परिवार हो जिसे मैंने विशेष ध्यान देने के लिये चुना। किन्तु तुम मेरे विरुद्ध हो गए। अतः मैं तुम्हारे सभी पापों के लिये दण्ड दूँगा।”

इस्राएल को दण्ड देने का कारण

3 दो व्यक्ति तब तक एक साथ नहीं चल सकते

जब तक वे कोई वाचा न करें!

4 जंगल में सिंह अपने शिकार को पकड़ने के बाद ही गरजता है।

यदि कोई जवान सिंह अपनी माँद में गरज रहा हो तो

उसका संकेत यही है कि

उ सने अपने शिकार को पकड़ लिया है।

5 कोई चिड़िया भूमि पर जाल में तब तक नहीं पड़ेगी

जब तक उसमें कोई चुगना न हो

यदि जाल बन्द हो जाये तो

वह चिड़िया को फँसा लेगा।

6 यदि कोई तुरही खतरे की चेतावनी देगी तो

लोग भय से अवश्य काँप उठेंगे।

यदि कोई विपत्ति किसी नगर में आई हो तो

उसे यहोवा ने भेजा।

7 मेरा स्वामी यहोवा कुछ भी करने का निश्चय कर सकता है। किन्तु कुछ भी करने से पहले वह अपने सेवक नबियों को अपनी छिपी योजना बतायेगा।

8 यदि कोई सिंह दहाड़ेगा तो लोग भयभीत होंगे। यदि यहोवा कुछ भविष्यवक्ता से कहेगा तो वह भविष्यवाणी करेगा।

9-10 अशदोद और मिस्र के ऊँचे किलों पर जाओ और इस सन्देश की घोषणा करो: “शोमरोन के पर्वतों पर जाओ। वहाँ तुम बड़ी गड़बड़ी पाओगे। क्यों क्योंकि लोग नहीं जानते कि ठीक कैसे रहा जाता है। वे अन्य लोगों के प्रति क्रूर थे। वे अन्य लोगों से चीजें लेते थे और उन चीजों को अपने ऊँचे किलों में छिपाते थे। उनके खजाने युद्ध में ली गई उनकी चीजों से भरे हैं।”

11 अतः यहोवा कहता है, “उस देश में एक शत्रु आएगा। वह शत्रु तुम्हारी शक्ति ले लेगा। वह उन चीजों को ले लेगा जिन्हें तुमने अपने ऊँचे किलों में छिपा रखा है।”

12 यहोवा यह कहता है,

“जैसे जब कोई सिंह किसी मेमने पर झपटता है तो गड़ेरया उस मेमने का केवल

कोई हिस्सा ही बचा सकता है।

वह सिंह के मुँह से उसके दो पैर,  
या उसके कान के एक हिस्से को हीखीच सकता है।  
ठीक इसी तरह इस्राएल के अधिक लोग  
नहीं बचाये जा सकेंगे।

सामारिया में रहने वाले लोग अपने बिछौने का कोई कोना  
या अपनी चौकी का कोई पाया ही बचा पाएंगे।”

13 मेरे स्वामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, यह कहता है: “याकूब (इस्राएल) के परिवार के लोगों को इन बातों की चेतावनी दो।

14 इस्राएल ने पाप किया और मैं उनके पापों के लिये उन्हें दण्ड दूँगा। मैं बेतेल की वेदी को भी नष्ट करूँगा। वेदी की सींगे काट दी जाएंगी और वे भूमि पर गिर जाएंगी।

15 मैं गमी के गृहों के साथ शीतकालीन गृहों को भी नष्ट करूँगा। हाथी दाँत से सजे गृह भी नष्ट होंगे। अनेकों गृह नष्ट किये जाएंगे।” यहोवा यह सब कहता है।

## 4

### आनन्दप्रिय स्त्री

1 शोमरोन के पर्वत की बाशान की गायों मेरी बात सुनो। तुम गरीब लोगों को चोट पहुँचाती हो। तुम उन गरीबों को कुचलती हो। तुम अपने अपने पतियों से कहती हो, “पीने के लिये हमारे लिये कोई दाखमधु लाओ!”

2 मेरा स्वामी यहोवा ने मुझे एक वचन दिया। उसने अपनी पवित्रता के नाम प्रतिज्ञा की, कि तुम पर विपत्तियाँ आएंगी। लोग काटों का उपयोग करेंगे और तुम्हें बन्दी बना कर ले जाएंगे। वे तुम्हारे बच्चों को ले जाने के लिये मछलियों को फँसाने के काटों का उपयोग करेंगे।

3 तुम्हारा नगर नष्ट होगा। तुम दीवारों के छेदों से नगर के बाहर जाओगी। तुम अपने आपको शवों के ढेर पर फेंकोगी।

यहोवा यह कहता है:

4 “बेतेल जाओ और पाप करो! गिल्गाल जाओ तथा और अधिक पाप करो। अपनी बलियों की भेंट प्रातः काल करो। तीन दिन वाले पवित्र दिनों में अपनी फसल का दसवाँ भाग लाओ

5 और खमीर के साथ बनी धन्यवाद भेंट चढ़ाओ। हर एक को स्वेच्छा भेंट के बारे में बताओ। इस्राएल, तुम उन्हें पसन्द करना करते हो। अतः जाओ और वही करो।” यहोवा ने यह कहा।

6 “मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिये कई काम किये। मैंने तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारे किसी भी नगर में भोजन नहीं था। किन्तु तुम मेरे पास वापस नहीं लौटे।” यहोवा ने यह सब कहा।

7 “मैंने वर्षा भी बन्द की और यह फसल पकने के तीन महीने पहले हुआ। अतः कोई फसल नहीं हुई। तब मैंने एक नगर पर वर्षा होने दी किन्तु दूसरे नगर पर नहीं। वर्षा देश के एक हिस्से में हुई। किन्तु देश के अन्य भागों में भूमि बहुत सूख गई।

8 अतः दो या तीन नगरों से लोग पानी लेने के लिये दूसरे नगरों को लड़खड़ाते हुए गए किन्तु वहाँ भी हर एक व्यक्ति के लिये पर्याप्त जल नहीं मिला। तो भी तुम मेरे पास सहायता के लिये नहीं आए।” यहोवा ने यह सब कहा।

9 “मैंने तुम्हारी फसलों को गर्मी और बीमारी से मार डाला। मैंने तुम्हारे बागों और अंगूर के बगीचों को नष्ट किया। टिट्टियों ने तुम्हारे अंजीर के पेड़ों और जैतून के पेड़ों को खा डाला। किन्तु तुम फिर भी मेरे पास सहायता के लिये नहीं आए।” यहोवा ने यह सब कहा।

10 “मैंने तुम्हारे विरूद्ध महामारियाँ वैसे ही भेजी जैसे मैंने मिस्र में भेजी थी। मैंने तुम्हारे युवकों को तलवार के घाट उतार दिया। मैंने तुम्हारे घोड़े ले लिये। मैंने तुम्हारे डेरों को शवों की दुर्गन्ध से भरा। किन्तु तब भी तुम मेरे पास सहायता को वापस नहीं लौटे।” यहोवा ने यह सब कहा।

11 “मैंने तुम्हें वैसे ही नष्ट किया जैसे मैंने सदोम और अमोरा को नष्ट किया था और वे नगर पूरी तरह नष्ट किये गये थे। तुम आग से खींची गई जलती लकड़ी की तरह थे। किन्तु तुम फिर भी सहायता के लिये मेरे पास नहीं लौटे।” यहोवा ने यह सब कहा।

12 “अतः इस्राएल, मैं तुम्हारे साथ यह सब करूँगा। मैं तुम्हारे साथ यह करूँगा। इस्राएल, अपने परमेश्वर से मिलने के लिये तैयार हो जाओ!”

13 मैं कौन हूँ मैं वही हूँ जिसने पर्वतों को बनाया।

मैंने तुम्हारा प्राण बनाया।

मैंने लोगों को अपने विचार बनाए।

मैं ही सुबह को शाम में बदलता हूँ।

मैं पृथ्वी के ऊपर के पर्वतों पर चलता हूँ।  
मैं कौन हूँ मेरा नाम यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर है।

## 5

इस्राएल के लिये शोक सन्देश

1 इस्राएल के लोगों, इस सन्देश को सुनो, यह शोक सन्देश तुम्हारे विषय में है।

2 इस्राएल की कुमारी गिर गई है।  
वह अब कभी उठेगी नहीं।  
वह धूली में पड़ी अकेली छोड़ दी गई है।  
उसे उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है।

3 मेरा स्वामी यहोवा यह कहता है:

“हजारों सैनिकों के साथ नगर से जाने वाले अधिकारी  
केवल सौ सैनिकों के साथ लौटेंगे।  
सौ सैनिकों के साथ नगर छोड़ने वाले अधिकारी  
केवल दस सैनिकों के साथ लौटेंगे।”

यहोवा इस्राएल को अपने पास लौटने के लिये प्रोत्साहित करता है

4 यहोवा इस्राएल के घराने से यह कहता है:

“मेरी खोज करते आओ और जीवित रहो।

5 किन्तु बेतेल में न खोजो।

गिल्गाल मत जाओ।

सीमा को पार न करो और बेशेबा न जाओ।

गिल्गाल के लोग बन्दी के रूप में ले जाए जाएंगे

और बेतेल नष्ट किया जाएगा।

6 यहोवा के पास जाओ और जीवित रहो।

यदि तुम यहोवा के यहाँ नहीं जाओगे, तो यूसुफ के घर में आग लगेगी।

आग यूसुफ के परिवार को नष्ट करेगी और बेतेल में उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा।



7-9 तुम्हें सहायता के लिये यहोवा के पास जाना चाहिये।  
 ये वही है जिसने कचपचिया और मृगशिरा को बनाया।  
 वह अंधकार को प्रातः प्रकाश में बदलता है।  
 वह दिन को अंधेरी रात में बदलता है।  
 वह समुद्र से जल को उठाकर उसे पृथ्वी पर बरसाता है।  
 उसका नाम यहोवा है  
 वह शक्तिशाली नगरों के  
 मजबूत किलों को ढहा देता है।”

इस्राएलियों द्वारा किये गए बुरे काम  
 लोगों, यह तुम्हारे लिये बहुत बुरा होगा तुमने अच्छाई को कड़वाहट में बदला।  
 तुमने औचित्य को मार डाला और इसे धूलि में मिला दिया।

10 नबी सामाजिक स्थानों पर जाते हैं और उन बुरे कामों के विरुद्ध बोलते हैं जिन्हें  
 लोग किया करते हैं।  
 किन्तु लोग उन नबियों से घृणा करते हैं।  
 नबी सत्य कहते हैं, किन्तु लोग उन नबियों से घृणा करते हैं।

11 तुम गरीबों से अनुचित कर वसूलते हो।  
 तुम उनसे ढेर सारा गेहूँ लेते हो  
 और इस धन का उपयोग तुम तराशे पत्थरों से सुन्दर महल बनाने में करते हो।  
 किन्तु तुम उन महलों में नहीं रहोगे।  
 तुम अंगूरों की बेलों के सुन्दर खेत बनाते हो।  
 किन्तु तुम उनसे प्राप्त दाखमधु को नहीं पीओगे।

12 क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे अनेक पापों को जानता हूँ।  
 तुमने, सच ही, कुछ बुरे काम किये हैं।  
 तुमने उचित काम करने वालों को चोट पहुँचाई।  
 तुमने घूस के रूप में धन लिया।  
 गरीब लोगों के साथ अनेक मुकद्दमों में तुमने अन्याय किया।

13 उस समय बुद्धिमान चुप रहेंगे।  
 क्यों क्योंकि यह बुरा समय है।

14 तुम कहते हो कि परमेश्वर हमारे साथ है।  
 अतः अच्छे काम करो, बुरे नहीं।

तब तुम जीवित रहोगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा  
सच ही तुम्हारे साथ होगा।

15 बुराई से घृणा करो।

अच्छाई से प्रेम करो।

न्यायालयों में न्याय वापस लाओ और तब संभव है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर  
यहोवा यूसुफ परिवार के बचे लोगों पर दयालु हो।

बड़े शोक का समय आ रहा है

16 यही कारण है कि मेरा स्वामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर यह कह रहा है,  
“लोग सभी सार्वजनिक स्थानों में रोएंगे, लोग सड़कों पर रोएंगे।  
लोग पेशेवर रोने वालों को भाड़े पर रखेंगे।

17 लोग अंगूर के सभी खेतों में रोएंगे।

क्यों क्योंकि मैं वहाँ से निकलूँगा और तुम्हें दण्ड दूँगा।”

यहोवा ने यह सब कहा है।

18 तुमसे कुछ यहोवा के न्याय के

विशेष दिन को देखना चाहते हैं।

तुम उस दिन को क्यों देखना चाहते हो

यहोवा का विशेष दिन तुम्हारे लिये अन्धकार लाएगा, प्रकाश नहीं।

19 तुम किसी सिंह के सामने से बचकर भाग निकलने वाले ऐसे व्यक्ति के समान  
होगे

जिस पर भागते समय रीछ आक्रमण कर देता है

और फिर जब वह उस रीछ से भी बच निकलकर किसी घर में जा घुसता है

तो वहाँ दीवार पर हाथ रखते ही,

उसे साँप डस लेता है।

20 अतः यहोवा का विशेष दिन अन्धकार लाएगा, प्रकाश नहीं,

यह शोक का समय होगा उल्लास का नहीं।

यहोवा इस्राएलियों की आराधना अस्वीकार कर रहा है

21 “मैं तुम्हारे पवित्र दिनों से घृणा करता हूँ!

मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा!

मैं तुम्हारी धार्मिक सभाओं का आनन्द नहीं लेता!

22 यदि तुम होमबलि और अन्नबलि भी दोगे तो

- मैं स्वीकार नहीं करूँगा।  
 तुम जिन मोटे जानवरों को शान्ति—भेंट के रूप में दोगे  
 उन्हें मैं देखूँगा भी नहीं।
- 23 तुम यहाँ से अपने शोरगुल वाले गीतों को दूर करो।  
 मैं तुम्हारी वीणा के संगीत को नहीं सुनूँगा।
- 24 तुम्हें अपने सारे देश में न्याय को नदी की तरह बहने देना चाहिये।  
 अच्छाई को सदा सरिता की धारा की तरह बहने दो जो कभी सूखती नहीं।
- 25 इस्राएल, तुमने चालीस वर्ष तक मरूभूमि में  
 मुझे बलि और भेंट चढाई।
- 26 तुम अपने राजा (देवता) सक्कुथ और नक्षत्र देवता कैवन की मूर्तियों को लेकर  
 चले।  
 इन देवताओं की मूर्तियों को स्वयं तुमने अपने लिये बनाया था।
- 27 अतः मैं तुम्हें बन्दी बनाकर  
 दमिश्क के पार पहुँचाऊँगा  
 यह सब यहोवा कहता है।  
 उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।

## 6

इस्राएल से अच्छा समय ले लिया जाएगा

- 1 सियोन के तुम लोगों में से कुछ का जीवन बहुत आराम का है।  
 सामारिया पर्वत के कुछ लोग अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं किन्तु तुम  
 पर अनेक विपत्तियाँ आएंगी।  
 राष्ट्रों के सर्वोत्तम नगरों के तुम “सम्मानित” लोग हो।  
 “इस्राएल के लोग” न्याय पाने के लिये तुम्हारे पास आते हैं!
- 2 जाओ और कलने पर ध्यान दो।  
 वहाँ से विशाल नगर हमात को जाओ।  
 पलिशती नगर गत को जाओ।  
 क्या तुम इन राज्यों से अच्छे हो नहीं!  
 उनके देश तुम्हारे से बड़े हैं।
- 3 तुम लोग वह काम कर रहे हो, जो दण्ड के दिन को समीप लाता है।

- तुम हिंसा के शासन को समीप, और समीप ला रहे हो।
- 4 किन्तु तुम सभी विलासों का भोग करते हो।  
तुम हाथी दाँत की सेज पर सोते हो और अपने बिछौने पर आराम करते हो।  
तुम रेवड़ों में से कोमल मेमने  
और बाड़ों में से नये बछड़े खाते हो।
- 5 तुम अपनी वीणायें बजाते हो  
और राजा दाऊद की तरह अपने बाघों पर अभ्यास करते हो।
- 6 तुम सुन्दर प्यालों में दाखमधु पीया करते हो।  
तुम सर्वोत्तम तेलों से अपनी मालिश करते हो  
और तुम्हें इसके लिये घबराहट भी नहीं कि  
यूसुफ का परिवार नष्ट किया जा रहा है।

7 वे लोग अब अपने बिछौने पर आराम कर रहे हैं। किन्तु उनका अच्छा समय समाप्त होगा। वे बन्दी के रूप में विदेशों में पहुँचाये जाएंगे और वे प्रथम पकड़े जाने वालों में से कुछ होंगे।

8 मेरे स्वामी यहोवा ने यह प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने अपना नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा लिया और यह प्रतिज्ञा की:

“मैं उन बातों से घृणा करता हूँ,  
जिन पर याकूब को गर्व है। मैं उसकी दृढ़ मीनारों से घृणा करता हूँ।  
अतः मैं शत्रु को नगर तथा  
नगर की हर एक चीज लेने दूँगा।”

थोड़े से इस्राएली जीवित बचेंगे

9 उस समय, किसी घर में यदि दस व्यक्ति जीवित बचेंगे तो वे भी मर जाएंगे।

10 जब कोई मर जाएगा तब कोई सम्बन्धी शव लेने आएगा, जिससे वह उसे बाहर ले जा सके और जला सके। सम्बन्धी घर में से हड्डियाँ लेने आयेगा। लोग किसी भी उस व्यक्ति से जो घर के भीतर छिपा होगा, पूछेंगे, “क्या तुम्हारे पास कोई अन्य शव है?”

वह व्यक्ति उत्तर देगा, “नहीं ...।”

तब व्यक्ति के सम्बन्धी कहेंगे, “चुप! हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिये।”

- 11 देखो, परमेश्वर यहोवा आदेश देगा  
 और विशाल महल टुकड़े—टुकड़े किये जायेंगे  
 और छोटे घर छोटे—छोटे टुकड़ों में तोड़े जाएंगे।
- 12 क्या घोड़े शिलाखंडो पर दौड़ते हैं नहीं!  
 क्या लोग समुद्र को बैलों से जोत सकते हैं नहीं।  
 तो भी तुम हर चीज को उलट—पलट देते हो।  
 तुम अच्छाई और न्याय को जहर में बदल देते हो।
- 13 तुम लो—देवर में प्रसन्न हो,  
 तुम कहते हो, “हमने करनैम को अपनी शक्ति से जीता है।”

14 “किन्तु इस्राएल, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक राष्ट्र को भेजूँगा। वह राष्ट्र तुम्हारे सारे देश को, लेबो—हमात से लेकर अराबा नाले तक विपत्ति में डालेंगे।” सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने वह सब कहा।

## 7

### दर्शन में टिड्डियाँ

1 यहोवा ने मुझे यह दिखाया: उसने दूसरी फसल उगने के समय टिड्डी दलों की रचना आरम्भ की। राजा द्वारा प्रथम फसल काट लिये जाने के बाद यह दूसरी फसल थी।

2 टिड्डियों ने देश की सारी घास खा डाली। उसके बाद मैंने कहा, “मेरे स्वामी यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें क्षमा कर! याकूब बच नहीं सकता! वह अत्यन्त छोटा है!”

3 तब यहोवा ने इसके बारे में अपने विचार को बदला। यहोवा ने कहा, “ऐसा नहीं होगा।”

### दर्शन में आग

4 मेरे स्वामी यहोवा ने मुझे ये चीजें दिखाई; मैंने देखा कि यहोवा परमेश्वर अग्नि को वर्षा की तरह बरसने के लिए बुला रहा है। अग्नि ने विशाल गहरे समुद्र को नष्ट कर दिया। अग्नि भूमि को चट करने लगी।

5 किन्तु मैंने कहा, “हे परमेश्वर यहोवा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, ठहर। याकूब बच नहीं सकता! वह बहुत छोटा है!”

6 तब यहोवा ने इसके बारे में अपना विचार बदला। परमेश्वर यहोवा ने कहा, “ऐसा नहीं होगा।”

### दर्शन में साहुल

7 यहोवा ने मुझे यह दिखाया: यहोवा एक दीवार के सहारे एक साहुल अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ था। (दीवार साहुल से सीधी की गई थी।)

8 यहोवा ने मुझसे कहा, “आमोस, तुम क्या देखते हो?”

मैंने कहा, “साहुल।”

तब मेरे स्वामी ने कहा, “देखो, मैं अपने इस्राएल के लोगों पर साहुल का उपयोग करूँगा। मैं अब और आगे उनके टेढ़ेपन को नजरन्दाज नहीं करूँगा। मैं उन बुरे भागों को काट फेंकूँगा।

9 इसहाक के उच्च स्थान नष्ट किये जायेंगे। इस्राएल के पवित्र स्थान चट्टान की ढेरों में बदल दिये जाएंगे। मैं आक्रमण करूँगा और यारोबाम के परिवार को तलवार के घाट उतारूँगा।”

### अमस्याह आमोस को भविष्यवाणी करने से रोकने का प्रयत्न करता है

10 बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यारोबाम को यह सन्देश भेजा: “आमोस तुम्हारे विस्फुट षडयन्त्र रच रहा है। वह इस्राएल के लोगों को तुम्हारे विस्फुट युद्ध के लिये भड़का रहा है। वह इतना अधिक कह रहा है कि उसके शब्द पूरे देश में भी समा नहीं सकते।

11 आमोस ने कहा है, ‘यारोबाम तलवार के घाट उतरेगा और इस्राएल के लोगों को बन्दी बनाकर अपने देश से बाहर ले जाए जाएंगे।’ ”

12 अमस्याह ने भी आमोस से कहा, “हे दर्शी, यहूदा जाओ और वही खाओ। अपने उपदेश वही दो।

13 किन्तु यहाँ बेतेल में और अधिक उपदेश मत दो! यह यारोबाम का पवित्र स्थान है। यह इस्राएल का मन्दिर है!”

14 तब आमोस ने अमस्याह को उत्तर दिया, “मैं पेशेवर नबी नहीं हूँ और मैं नबी के परिवार का नहीं हूँ। मैं पशु पालता हूँ और गूलर के पेड़ों की देखभाल करता हूँ।

15 मैं गड़ेरिया था और यहोवा ने मुझे भेड़ों को चराने से मुक्त किया। यहोवा ने मुझसे कहा, 'जाओ, मेरे लोग इस्राएलियों में भविष्यवाणी करो।'

16 इसलिये यहोवा के सन्देश को सुनो। तुम मुझसे कहते हो 'इस्राएल के विस्दु भविष्यवाणी मत करो। इसहाक के परिवार के विस्दु उपदेश मत दो।'

17 किन्तु यहोवा कहता है: 'तुम्हारी पत्नी नगर में वेश्या बनेगी। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियाँ तलवार द्वारा मारे जाएंगे। अन्य लोग तुम्हारी भूमि लेंगे और आपस में बाटेंगे और तुम विदेश में मरोगे। इस्राएल के लोग निश्चय ही, इस देश से बन्दी के रूप में ले जाए जाएंगे।' "

## 8

### दर्शन में पके फल

1 यहोवा ने मुझे यह दिखाया: मैंने ग्रीष्म के फलों की एक टोकरी देखी:

2 यहोवा ने पूछा, "अमोस, तुम क्या देखते हो?"

मैंने कहा, "ग्रीष्म के फलों की एक टोकरी।"

तब यहोवा ने मुझसे कहा, "मेरे लोग इस्राएलियों का अन्त आ गया है। मैं उनके पापों को और अनदेखा नहीं कर सकता।

3 मन्दिर के गीत शोक गीत बन जाएंगे। मेरे स्वामी यहोवा ने यह सब कहा। सर्वत्र शव ही होंगे। सन्नाटे में लोग शवों को ले जाएंगे और उनके ढेर लगा देंगे।"

### इस्राएल के व्यापारी केवल धन बनाने में लगे रहना चाहते हैं

4 मेरी सुनो! लोगों तुम असहायों को कुचलते हो।

तुम इस देश के गरीबों को नष्ट करना चाहते हो।

5 व्यापारियों, तुम कहते हो,

"नवचन्द्र कब बीतेगा, जिससे हम अन्न बेच सकेंगे

सब्त कब बीतेगा,

जिससे हम अपना गेहूँ बेचने को ला सकेंगे

हम कीमतेँ बढ़ा सकेंगे,

बाटों को हलका कर सकेंगे,

और हम तराजूओं को ऐसा व्यवस्थित कर लेंगे

कि लोगों को ठग सकें।

6 गरीब अपना ऋण वापस नहीं कर सकते अतः

हम उन्हें दास के रूप में खरीदेंगे।

हम उन्न गरीबों को  
 एक जोड़ी जूतों की कीमत में खरीदेंगे।  
 अहो! हम उस खराब गेहूँ को भी बेच सकते हैं,  
 जो फर्श पर बिखर गया हो।”

7 यहोवा ने प्रतिज्ञा की। उसने “याकूब गर्व” नामक अपने नाम का उपयोग किया और यह प्रतिज्ञा की:

“मैं उन लोगों के किये कामों के लिये उन्हें क्षमा नहीं कर सकता।

8 उन कामों के कारण पूरा देश काँप जाएगा।

इस देश का हर एक निवासी मृतकों के लिये रोयेगा।  
 पूरा देश मिस्र में नील नदी की तरह उमड़ेगा और नीचे गिरेगा।  
 पूरा देश चारों ओर उछाल दिया जायेगा।”

9 यहोवा ने ये बातें भी कहीं:

“उस समय, मैं सूरज दोपहर में ही अस्त करूँगा।

मैं प्रकाश भरे दिन में पृथ्वी को अन्धकारपूर्ण करूँगा।

10 मैं तुम्हारे पवित्र दिनों को मृतकों के लिये शोक—दिवस में बदलूँगा।

तुम्हारे सभी गीत मृतकों के लिये शोक गीत बनेंगे।

मैं हर एक को शोक वस्त्र पहनाऊँगा।

मैं हर एक सिर को मुँडवा दूँगा।

मैं ऐसा गहरा शोक भरा रोना बनाऊँगा

मानो वह एक मात्र पुत्र के शोक का हो।

यह एक अत्यन्त कटु अन्त होगा।”

परमेश्वर के संसार के लिए भयंकर भुखमरी पूर्ण भविष्य

11 यहोवा कहता है:

“देखो, वे दिन समीप आ रहा है,

जब मैं देश में भुखमरी लाऊँगा,

लोग रोटी के भूखे

और पानी के प्यासे नहीं होंगे,



बल्कि लोग यहोवा के वचन के भूखे होंगे।

12 लोग एक सागर से दूसरे सागर तक भटकेंगे।

वे उत्तर से दक्षिण तक भटकेंगे।

वे लोग यहोवा के सन्देश के लिये आगे बढ़ेंगे, पीछे हटेंगे,  
किन्तु वे उसे पाएंगे नहीं।

13 उस समय सुन्दर युवतियाँ और युवक  
प्यास के कारण बेहोश हो जाएंगे।

14 उन लोगों ने शोमरोन के पाप के नाम पर प्रतिज्ञायें कीं।  
उन्होंने कहा,

‘दान तुम्हारे देवता की सन्ता निश्चित सत्य है, इससे हम प्रतिज्ञा करते हैं ...,  
और बेर्शेबा के देवता की सन्ता निश्चित सत्य है, इससे हम प्रतिज्ञा करते हैं

अतः उन लोगों का पतन होगा  
और वे फिर कभी उठेंगे नहीं।”

## 9

दर्शन में यहोवा का वेदी के सहारे खड़ा होना

1 मैंने अपने स्वामी को दर्शन के सामने खड़ा देखा। उसने कहा,

“स्तम्भों के सिरे पर प्रहार करो, और पूरी इमारत की देहली तक काँप उठेगी।

स्तम्भों को लोगों के सिर पर गिराओ।

यदि कोई जीवित बचेगा, सो उसे तलवार से मारो।

कोई व्यक्ति भाग सकता है, किन्तु वह बच नहीं सकेगा।

लोगों में से कोई भी व्यक्ति बचकर नहीं निकलेगा।

2 यदि वे नीचे पाताल में खोदकर जाएंगे,

मैं उन्हें वहाँ से खींच लूँगा।

यदि वे ऊपर आकाश में जाएंगे

मैं उन्हें वहाँ से नीचे लाऊँगा।

3 यदि वे कर्मरल पर्वत की चोटी पर जा छिपेंगे,

मैं उन्हें वहाँ खोज लूँगा और मैं उन्हें उस स्थान से ले आऊँगा।

यदि वे मुझसे, समुद्र के तल में छिपना चाहते हैं,

मैं सर्प को आदेश दूँगा और वह उन्हें डस लेगा।  
 4 यदि वे पकड़े जाएँगे और अपने शत्रु द्वारा ले जाए जाएँगे,  
 मैं तलवार को आदेश दूँगा  
 और वह उन्हें वहीं मारेगी।  
 हाँ, मैं उन पर कड़ी निगाह रखूँगा किन्तु  
 मैं उन्हें कष्ट देने के तरीकों पर निगाह रखूँगा।  
 उनके लिये अच्छे काम करने के तरीकों पर नहीं।”

देश के लोगों को दण्ड नष्ट करेगा  
 5 मेरे स्वामी सर्वशक्तिमान यहोवा, उस प्रदेश को छुएगा  
 और वह पिघल जाएगा  
 तब उस देश के सभी निवासी मृतको के लिये रोएँगे।  
 यह प्रदेश मिस्र की नील नदी की तरह ऊपर उठेगा  
 और नीचे गिरेगा।  
 6 यहोवा ने अपने ऊपर के निवास आकाश के ऊपर बनाए।  
 उसने अपने आकाश को पृथ्वी पर रखा।  
 वह सागर के जल को बुला लेता है, और देश पर उसकी वर्षा करता है।  
 उसका नाम यहोवा है।

यहोवा इस्राएल को नष्ट करने का प्रतिज्ञा करता है  
 7 यहोवा यह कहता है:

“इस्राएल, तुम मेरे लिये कूशियों की तरह हो।  
 मैं इस्राएल को मिस्र से निकाल कर लाया।  
 मैं पलिशितियों को भी कप्तोर से लाया और अरामियों को कीर से।”  
 8 मेरे स्वामी यहोवा पापपूर्ण राज्य (इस्राएल) पर दृष्टि रखा है।  
 यहोवा यह कहता है,  
 “मैं पृथ्वी पर से इस्राएल को नष्ट कर दूँगा।  
 किन्तु मैं याकूब के परिवार को पूरी तरह नष्ट नहीं करूँगा।  
 9 मैं इस्राएल के घराने को तितर—बितर करके  
 अन्य राष्ट्रों में बिखेर देने का आदेश देता हूँ।  
 यह उसी प्रकार होगा जैसे कोई व्यक्ति अनाज को छनने से छन देता हो।

अच्छा आटा उससे निकल जाता है, किन्तु बुरे अंश फँस जाते हैं।  
याकूब के परिवार के साथ ऐसा ही होगा।

10 “मेरे लोगों के बीच पापी कहते हैं,  
‘हम लोगों के साथ कुछ भी बुरा घटित नहीं होगा!’  
किन्तु वे सभी लोग तलवार से मार दिये जाएँगे।”

परमेश्वर राज्य की पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञा करता है

11 “दाऊद का डेरा गिर गया है,  
किन्तु उस समय इस डेरे को मैं फिर खड़ा करूँगा।  
मैं दीवारों के छेदों को भर दूँगा।

मैं नष्ट इमारतों को फिर से बनाऊँगा।  
मैं इसे ऐसा बनाऊँगा जैसा यह पहले था।

12 फिर वे एदोम में जो लोग बच गये हैं,  
उन्हें और उन जातियों को  
जो मेरे नाम से जानी जाती है, ले जायेंगे।”  
यहोवा ने वे बातें कहीं, और वे उन्हें घटित करायेगा।

13 यहोवा कहता है, “वह समय आ रहा है, जब हर प्रकार का भोजन बहुतायत में  
होगा।

अभी लोग पूरी तरह फसल काट भी नहीं पाये होंगे  
कि जुताई का समय आ जायेगा।

लोग अभी अंगूरों का रस निकाल ही रहे होंगे  
कि अंगूरों की रूपाई का समय फिर आ पहुँचेगा।  
पर्वतों से दाखमधु की धार बहेगी

और वह पहाड़ियों से बरसेगी।  
14 मैं अपने लोगों इस्त्राएलियों को  
देश निकाले से वापस लाऊँगा।  
वे नष्ट हुए नगरों को फिर से बनाएंगे  
और उन नगरों में रहेंगे।  
वे अंगूर की बेलों के बाग लगाएंगे  
और वे उन बागों से प्राप्त दाखमधु पीएंगे।

वे बाग लगाएंगे

और वे उन बागों के फलों को खाएंगे।

15 मैं अपने लोगों को उनकी भूमि पर जमाऊँगा

और वे पुनः उस देश से उखाड़े नहीं जाएंगे जिसे मैंने उन्हें दिया है।”

यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने ये बातें कहीं।

पवित्र बाइबल

**The Holy Bible, Easy Reading Version, in Hindi**

copyright © 1992-2010 World Bible Translation Center

Language: हिंदी (Hindi)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online ad space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at [distribution@wbtc.com](mailto:distribution@wbtc.com). World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: [info@wbtc.com](mailto:info@wbtc.com) WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: <http://www.wbtc.org>

2019-11-15

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files  
dated 13 Dec 2023

7f0fcd5b-bc85-55f6-933a-0de82e7ef275